

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 — आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-33/2019/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत सरगांव, जिला-मुंगेली के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. सरगांव नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	रानी अवंती बाई वार्ड
2	भक्त कर्मामाता वार्ड
3	वीर भामासाह वार्ड
4	बरमदेव वार्ड
5	लक्ष्मी वार्ड
6	राम सप्ताह वार्ड
7	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
8	जय स्तंभ वार्ड
9	गुरु गोविंद सिंह वार्ड
10	इंदिरा वार्ड
11	बजरंग वार्ड
12	सुभाष वार्ड
13	स्वामी विवेकानंद वार्ड
14	अटल वार्ड
15	आजाद वार्ड

सरगांव नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 01 रानी अवंती बाई वार्ड

- उत्तर - टेसुआ नाला से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर ऑगनबाड़ी भवन होते हुए शा.प्रा.शाला भवन तक ।
 पूर्व - शा.प्रा.शाला भवन से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर सरगांव खपरी पहुँच मार्ग तक ।
 दक्षिण - सरगांव खपरी पहुँच मार्ग से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर सामुदायिक भवन होते हुए छबीलाल के घर तक ।
 पश्चिम - छबीलाल के घर से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर टेसुआ नाला तक ।

वार्ड क्रमांक 02 भक्त कर्मामाता वार्ड

- उत्तर - शासकीय मदिरा दुकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर विश्राम गृह पर्यटन विभाग होते हुए तहसील कार्यालय भवन तक ।
 पूर्व - तहसील कार्यालय से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर दुरपति साहू के मकान तक ।
 दक्षिण - दुरपति साहू के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर राजकुमार साहू के मकान होते हुए सोहन के मकान तक ।
 पश्चिम - सोहन के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर शासकीय मदिरा दुकान तक ।

वार्ड क्रमांक 03 वीर भामासाह वार्ड

- उत्तर - अशोक साहू के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर सुन्दर साहू के मकान होते हुए लक्ष्मी देवांगन के मकान तक ।
 पूर्व - लक्ष्मी देवांगन के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर घनश्याम कौशिक के मकान होते हुए ईस्माईल के मकान तक ।
 दक्षिण - ईस्माईल के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर पुसउ साहू के मकान तक ।
 पश्चिम - पुसउ साहू के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर हरिराम साहू के मकान होते हुए अशोक साहू के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 04 बरमदेव वार्ड

- उत्तर - छेदी साहू के घर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर मेघनाथ के मकान होते हुए माण्डवी शर्मा के मकान तक ।
 पूर्व - माण्डवी शर्मा के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर दिलहरण साहू के मकान होते हुए पानी टंकी तक ।
 दक्षिण - पानी टंकी से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर सती वैष्णव के मकान होते हुए राम स्वरूप के मकान तक ।
 पश्चिम - राम स्वरूप के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर कंदहा तालाब होते हुए छेदी साहू के घर तक ।

वार्ड क्रमांक 05 लक्ष्मी वार्ड

- उत्तर - गिरधारी साहू के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर चुन्नी लाल साहू के मकान होते हुए शिवकुमार साहू के मकान तक ।
 पूर्व - शिवकुमार साहू के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर छेदू कैंवट के मकान होते हुए ऑगनबाड़ी भवन तक ।
 दक्षिण - ऑगनबाड़ी भवन से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर बंधवा तालाब तक ।
 पश्चिम - बंधवा तालाब से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर रतन साहू के मकान होते हुए गिरधारी साहू के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक 06 राम सप्ताह वार्ड

- उत्तर - जलेश्वर कौशिक के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर बसंत कौशिक के मकान होते हुए बड़ा पुलिया तक।
- पूर्व - बड़ा पुलिया से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर रामसप्ताह चौक सामुदायिक भवन तक।
- दक्षिण - रामसप्ताह सामुदायिक भवन से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर राधाकृष्ण मंदिर, छोटा तालाब, मुक्तिधाम होते हुए ईण्डेन गैस एजेंसी तक।
- पश्चिम - ईण्डेन गैस एजेंसी से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर बड़ा तालाब, पुरानी मस्जिद होते हुए जलेश्वर कौशिक के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 07 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

- उत्तर - मुरीत वर्मा के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर लक्ष्मण वर्मा के मकान होते हुए जगेश कौशिक के मकान तक।
- पूर्व - जगेश कौशिक के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर लक्ष्मण यादव के मकान होते हुए श्रीराम जानकी मंदिर तक।
- दक्षिण - श्रीराम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर गणेश वर्मा के मकान होते हुए रामकुमार कौशिक के मकान तक।
- पश्चिम - रामकुमार कौशिक के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर मुरीत वर्मा के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 08 जय स्तंभ वार्ड

- उत्तर - जलील खान के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर आबिद अली के मकान होते हुए कुआ चौक तक।
- पूर्व - कुआ चौक से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर से रामबिलास गोडाउन तक।
- दक्षिण - रामबिलास के गोडाउन से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर संतोष विश्वकर्मा के मकान तक।
- पश्चिम - संतोष विश्वकर्मा के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर जलील खान के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 09 गुरु गोविंद सिंह वार्ड

- उत्तर - रवि मोबाईल से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर मन्नान खान, मथुरा यादव के मकान होते हुए संतोषी यादव के मकान तक।
- पूर्व - संतोषी यादव के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 1954/1 होते हुए मोहमदटा चौक तक।
- दक्षिण - मोहमदटा चौक से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुराज पेट्रोल पंप, सरदार पोहा मिल, सुप्रीम पेट्रोल पम्प होते हुए शिवम स्टोर्स तक।
- पश्चिम - शिवम स्टोर्स से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर लक्ष्म कम्प्यूटर, मोईन खान के मकान होते हुए रवि मोबाईल तक।

वार्ड क्रमांक 10 इंदिरा वार्ड

- उत्तर - मोहम्मद खलील खान के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर गौकरण यादव के मकान होते हुए रेखा यादव के मकान तक।
- पूर्व - रेखा यादव के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर एजाज अहमद के मकान तक।
- दक्षिण - एजाज अहमद के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर जगजीत सिंह के मकान होते हुए लक्ष्मण वर्मा के मकान तक।
- पश्चिम - लक्ष्मण वर्मा के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर मोहम्मद खलील खान के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 11 बजरंग वार्ड

- उत्तर - जलेश्वर कौशिक के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर सालिक साहू के मकान होते हुए संतोष साहू के मकान तक।
- पूर्व - संतोष साहू के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर रमेश साहू के मकान से होते हुए हेमनाथ साहू के मकान तक।
- दक्षिण - हेमनाथ साहू के मकान से दक्षिण पश्चिम की ओर दूखी राम कौशिक के मकान तक।
- पश्चिम - दूखीराम कौशिक के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर चंद्रहास कौशिक के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 12 सुभाष वार्ड

- उत्तर — वरदंत एग्रो फार्म हाउस से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर भारती पेट्रोल पंप एवं भोईना तालाब होते हुए जाहिदा बेगम के मकान तक।
- पूर्व — जाहिदा बेगम के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर दिलहरण साहू के मकान होते हुए प्यारे साहू के मकान तक।
- दक्षिण — प्यारे साहू के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर कुकुर बोरा तालाब होते हुए विष्णु साहू के मकान तक।
- पश्चिम — विष्णु साहू के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर वरदंत एग्रो फार्म हाउस तक।

वार्ड क्रमांक 13 स्वामी विवेकानंद वार्ड

- उत्तर — पूजा ढाबा से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर बांध एवं पुष्पवाटिका व नगर पंचायत कार्यालय भवन होते हुए धनुष ढाबा तक।
- पूर्व — धनुष ढाबा से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर नरेन्द्र साहू के मकान होते हुए खन्तिहा तालाब तक।
- दक्षिण — खन्तिहा तालाब से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर उन्मुक्त खेल मैदान होते हुए सरगांव बाईपास चौक तक।
- पश्चिम — सरगांव बाईपास चौक से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर पूजा ढाबा तक।

वार्ड क्रमांक 14 अटल वार्ड

- उत्तर — चैतराम यादव के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर यासीन के मकान होते हुए जेदू साहू के मकान तक।
- पूर्व — जेदू साहू के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर ईश्वर गंधर्व के मकान होते हुए मुस्तफा के मकान तक।
- दक्षिण — मुस्तफा के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर शासकीय प्राथमिक शाला हकीम नगर होते हुए बी.आर.साहू के मकान तक।
- पश्चिम — बी.आर. साहू के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर अटल चौक कृषि मंडी होते हुए चैतराम यादव के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 15 आजाद वार्ड

- उत्तर — राजकुमार साहू के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जगदीश देवांगन के मकान तक।
- पूर्व — जगदीश देवांगन के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर मुस्लिम कब्रिस्तान तक।
- दक्षिण — कब्रिस्तान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर उमेश सोनी के मकान तक।
- पश्चिम — उमेश सोनी के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर राजकुमार के मकान तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-33/2019/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-33/2019/18 दिनांक 12-07-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 12th July 2019

NOTIFICATION

No. F 1-33/2019/18. — In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Sargaon, Distt. Mungeli as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Sargaon into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

WARD No.	WARD NAME
1	RANI AVANTI BAI WARD
2	BHAKT KARMAMATA WARD
3	VEER BHAMA SHAH WARD
4	BARAMDEV WARD
5	LAXMI WARD
6	RAMSAPTTAH WARD
7	PT.DEENDAYAL UPPADHAYAY WARD
8	JAI STAMBH WARD
9	GURUGOVIND SINGH WARD
10	INDIRA WARD
11	BAJRANG WARD
12	SUBHASH WARD
13	SWAMI VIVEKANAND WARD
14	ATAL WARD
15	AZAAD WARD

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Sargaon

ward number 01 Rani Avanti Bai ward

North-	Starting from Tesua Nalla, to the North East towards Agnabadi Bhavan, till government primary shchool building.
East-	Starting from government primary shchool building towards the east south direction till sargaon khapari approach road.
South-	from sargaon khapari approach road towards south west direction to the house of Chhibilal by having a community building.
West -	starting from Chibilal's house, towards west north direction to Tesua Nala.

Ward Number 02 Bhakt karmaMata ward

North-	Starting from the government liquor shop towards north east direction including tourism department resort to the tahsil office building.
East-	starting from tahsile office building towards east south upto durpati sahu house.
South-	starting from durpati house towards south west direction including rajkumar house upto sohan house.
West-	strating from sohan house towards west north direction upto government liquor shop.

Ward Number 03 Veer Bhamashah ward

North-	Starting from ashok sahu house towards north east direction including sundar sahu house upto laxmi dewangan house.
East-	starting from laxmi dewangan house towards east south direction taking ghanshyam kaushik house upto smile khan house.
South-	starting from smile house towards south west direction upto pusau sahu house.
West-	strating from pusau house towards west north direction taking hariram house upto ashok sahu house.

Ward Number 04 Baramdev ward

- North- Starting from chhedhi sahu house towards north east direction including meghnath house upto mandwi sharmahouse.
- East- starting from mandwi sharma house towards east south direction taking dilharan sahu house upto water overhead tank.
- South- starting from water overhead tank towards south west direction taking sati vaishnav house upto ramswarup house.
- West- strating from ramswarup house towards west north direction including kandaha talab upto chhedhi sahu house.

Ward Number 05 Laxmi ward

- North- Starting from girdhari sahu house towards north east direction taking chunnilal sahu house upto shivkumar house.
- East- starting from shivkumar house towards east south direction taking chhedu kewant sahu house upto aanganbadi building.
- South- starting from aanganbadi building towards south west direction upto surrounding bandhwa talab.
- West- strating from surrounding bandhwa talab towards west north direction taking ratan sahu upto girdhari sahu house.

Ward Number 06 Ram Saptah ward

- North- Starting from jaleshwer kaushik house towards north east direction taking basant kaushik house upto bada pulia.
- East- starting from bada pulia towards east south direction upto ramsaptah chowk community building.
- South- starting from ramsaptah chowk community building towards south west direction including radhakrishna mandir, chhota talab and muktidham upto indane gas agency.
- West- strating from indane gas agency towards west north direction including bada talab, old maszid upto jaleshwer kaushik house.

Ward Number 07 Pt. Dindayal Uppadhyay ward

- North- Starting from murit verma house towards north east direction taking laxman verma house upto jagesh kaushik house.
- East- starting from jagesh kaushik towards east south direction taking laxman yadav upto shreeram janki mandir.
- South- starting from shreeram janki mandir towards south west direction including ganesh verma house upto ramkumar kaushik.
- West- strating from ramkumar kaushik towards west north direction upto murit verma house.

Ward Number 08 Jaistambh ward

- North- Starting from jalil khan house towards north east direction taking aabid khan house upto kunwa chowk.
- East- starting from kunwa chowk towards east south direction upto rambilas godown.
- South- starting from rambilas godown towards south west direction upto santosh vishwkarma house.
- West- strating from santosh vishwkarma house towards west north direction upto jalil khan house.

Ward Number 09 Guru Govind Singh ward

- North- Starting from ravi mobile shop towards north east direction including mannan khan, mathura yadav house upto santoshi yadav house.
- East- starting from santoshi yadav house towards east south direction taking khasara no.1954/1 upto mohbhattha chowk.
- South- starting from mohbhattha chowk towards south west direction including samudayik swasth kendra, anuraaj petrol pump, sardar poha mill and supreme petrol pump upto shivam stores.
- West- strating from shivam stores towards west north direction including lakshya computers and moin khan house upto ravi mobile shop.

Ward Number 10 Indira ward

- North- Starting from md. khalil khan house towards north east direction including gaukaran yadav house upto rekha yadav house.
- East- starting from rekha yadav house towards east south direction upto ajaj ahmed house.
- South- starting from ajaj ahmed house towards south west direction taking jagjit singh house upto laxman verma house.
- West- strating from laxman verma house towards west north direction upto md. khalil khan.

Ward Number 11 Bajrang ward

- North- Starting from jaleshwer kaushik house towards north east direction including salik house house upto santosh sahu house.
- East- starting from santosh sahu house towards east south direction taking ramesh sahu upto hemnath sahu house.
- South- starting from hemnath house towards south west direction upto dukhiram kaushik house.
- West- strating from dukhiram kaushik house towards west north direction upto chandrahas kaushik house.

Ward Number 12 Subhash ward

- North- Starting from vardant agro farm house towards north east direction including bharti petrol pump and bhoina talab upto zahida begum house.
- East- starting from zahida begum house towards east south direction taking dilharan sahu upto pyare sahu house.
- South- starting from pyare sahu house towards south west direction taking kukurbora talab upto vishnu sahu house.
- West- strating from vishnu sahu house towards west north direction upto vardant agro farm house.

Ward Number 13 Swami Vivekanand ward

- North- Starting from pooja dhaba towards north east direction including bandh, pushpa watika and nagar panchayat office building upto dhanush dhaba.
- East- starting from dhanush dhaba towards east south direction taking narendra sahu upto surrounding khantiha talab.
- South- starting from khantiha talab surrounding towards south west direction taking un mukta khel maidan upto sargaon NH 130 bypass chowk.
- West- starting from sargaon NH 130 bypass chowk towards west north direction upto pooja dhaba.

Ward Number 14 Atal ward

- North- Starting from chaitram yadav house towards north east direction including yasin house upto jhethu sahu house.
- East- starting from jhethu sahu house towards east south direction taking ishwer gandharv house upto mustafa house.
- South- starting from mustafa house towards south west direction taking government primary school hakimnagar upto B.R. sahu house.
- West- starting from B.R. sahu house towards west north direction including atal chowk, krishi mandi upto chaitram yadav house.

Ward Number 15 Azad ward

- North- Starting from rajkumar sahu house towards north east direction upto jagdish dewangan house.
- East- starting from jagdish dewangan house towards east south direction upto muslim kabristaan.
- South- starting from muslim kabristaan towards south west direction upto umesh soni house.
- West- starting from umesh soni house towards west north direction upto rajkumar sahu house.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.